

2016-495000f Koduma Area-2 Rec Pt-05 Lawe Stamps 2000f
 OPAA 352737

23
 1899

Rs 14850 = 00
 E- 1000 = 00
 2 = 50
 0 = 94
 15853 = 44

4/19

AP No. 6279 & 6280



जमीन का विक्रय पत्र

यह सम्पूर्ण विक्रय पत्र (Deed of Absolute sale) आज दिनांक 8.8.2013 ई० को श्रीमति गीता देवी उर्फ गीता देवी मिश्र पति का नाम श्री शंभु नाथ मिश्र उर्फ शंभु नाथ जाति-ब्रह्मण, धर्म-हिन्दु, पेशा-गृहणी, राष्ट्रीयता भारतीय, निवास स्थान करमा पत्रालय करमा, थाना तिलैया, परगना गुमो, जिला कोडरमा वर्तमान निवासी 17 मोहम्मद रमजान लेन जोराबगान, कोलकाता 700006 जिन्हें यहाँ विक्रेता कहा गया है एवं विक्रेता से अभिप्राय उनके वैध उत्तराधिकारी, वारीसान, प्राधिकृत अभिकर्ता इत्यादि से भी है।

एवं

श्रीमति गुंजरी देवी पति का नाम श्री वासदेव नायक जाति-तेली, धर्म-हिन्दु, पेशा-गृहणी, राष्ट्रीयता भारतीय, साकिन मौजा वो पत्रालय जामु, थाना मरकच्चो, तत्कालिन जिला हजारीबाग हाल जिला कोडरमा जिन्हे यहाँ क्रेता कहा गया है एवं क्रेता से अभिप्राय उनके वैध उत्तराधिकारी, वारीसान, प्राधिकृत अभिकर्ता इत्यादि से भी है।



L.T. of Gunjari Devi
 Signature

21/9/13
 2

ma Mishra
 mbabu Nath Mishra
 Ramjan done, Kel-6
 arman, Tildiya,
 Kodersons.



यह कि मौजा असना, सर्वे थाना कोडरमा, हाल थाना तिलैया, जिला कोडरमा, थाना नं० 245 दो सौ पैतालीस के अन्तर्गत खाता नं० 14 चौदह प्लॉट नं० 2079 दो हजार नेवासी रकवा 1306 वर्गफीट जमीन खुद विक्रेता के नाम से बजरिये रजिस्ट्री केवाला द्वारा नविस्ते प्रदीप कुमार खाटुवाला पिता का नाम स्व० श्री लाल खाटुवाला साकिन मौजा तिलैया स्टेशन रोड पुराना वार्ड नं० 6 से शरकुमा वर्ष 22.7.1996 ई० से हासिल पाया गया है जिसका बुक नं० 1 भोलुम नं० 520 पेज नं० 233 ता 239 दस्तावेज संख्या 3854 वास्ते वर्ष 2011 वो निबंधन कार्यालय कोडरमा है।


यह कि हासिला के उपरान्त विक्रेता उक्त भूखण्ड पर कायम काबिज होकर सारे स्वत्व स्वामित्व वो अधिकार के साथ साथ शांतिपूर्ण दखल कब्जे में चली आ रही है एवं वर्तमान में भी है जिन्हे उक्त भूखण्ड को बिक्री करने का सारा अधिकार स्वत्व वो स्वामित्व वो टाइटल वो कानूनी अधिकार वो Valid Marketable title प्राप्त है एवं उक्त भूखण्ड की जमाबंदी अंचल सिरिस्ता कोडरमा कें पजी II के भोलुम 14 के पृष्ठ संख्या 48 पर विक्रेता के खुद के नाम से चल रही है जिसका वर्ष 2012-13 ई० का निर्गत रसीद संख्या JB/41 5757550 वो अंचल सिरिस्ता कोडरमा है।

यह कि विक्रेता अपने एक मात्र पुत्र/उत्तराधिकारी विजेन्द्र मिश्र से उक्त भूसंपत्ति को बिक्री करने का सहमति प्राप्त कर ली है जिसकी पुष्टि उनके पुत्र विजेन्द्र मिश्र ने इस दस्तावेज में अपना हस्ताक्षर पहचान के रूप में बन कर किये है।

यह कि उक्त भूसंपत्ति विक्रेता के पूर्ण स्वत्व वो स्वामित्व वो दखल कब्जे में है एवं बिक्री करने का पुरा हक वो अधिकार वो टाइटल वो कानूनी अधिकार है।

यह कि उक्त बिक्री भूमि किसी भी प्रकार के ऋण भार, बन्धक, स्वत्व वाद, प्रोहिबिटरी ऑर्डर, लिसपेन्डेन्सेस, लिन्स, सीलीग वो अटेचमेन्ट, इस्टोपल इत्यादि से मुक्त है।

यह कि विक्रेता उक्त भूमि जो मौजा असना, सर्वे थाना कोडरमा, जिला कोडरमा, थाना नं० 245 दो सौ पैतालीस के खाता नं० 14 के प्लॉट नं० 2079 कुल हासिल रकवा 1306 एक हजार तीन सौ छः वर्गफीट के मध्ये बिक्री रकवा 1306 एक हजार तीन सौ छः वर्गफीट अन्दर नगरपार्श्वद झुमरी तिलैया, वार्ड नं० 10, के अन्तर्गत



L.T.I of Gunjari olevi
- Shantanu per

2/9/13
श्री लाल खाटुवाला

श्री लाल खाटुवाला
कोडरमा - 2/9/13




अवस्थित है जिसका पुरा ब्योरा शिडयूल में दिया गया है एवं जिसे संलग्न नक्से में लाल रंग से घेरा गया है एवं जिसे विक्रेता को बिक्री करने का सारा अधिकार वो टाईटल वो कानूनी अधिकार प्राप्त है जिसे बिक्री करने का इरादा क्रेता के समक्ष रखे एवं क्रेता उसे बाजार मूल्य 4,95,000/- चार लाख पन्चानवे हजार रुपये (consideration money प्रचलित बाजार मूल्य) में खरीदने के लिए तैयार वो राजी हो गयीं।

यह कि यह इन्डेन्चर (Deed of absolute sale) साक्ष्यांकित/सत्यापित करता है:-

यह कि उपरोक्त प्रतिज्ञा एवं तय बाजार मूल्य (consideration) 4,95,000/- चार लाख पन्चानवे हजार रुपये जो क्रेता के द्वारा विक्रेता को भूगतान कर दिया गया है एवं जिसकी पावती रसिद/स्मृति पत्र (Memo of consideration) विक्रेता के द्वारा समर्पित किया गया है जो इस दस्तावेज में संलग्न है जिसे विक्रेता स्वीकार करती है एवं जिसकी पूर्ण जानकारी वो विश्वास में विक्रेता को है के आलोक में विक्रेता उक्त भूखण्ड वो हवाई स्पेस को जो विक्रेता के द्वारा बिक्री किया गया है खाता नं० 14 के प्लॉट नं० 2079 कुल हासिल रकवा 1306 एक हजार तीन सौ छः वर्गफीट के मधे बिक्री रकवा 1306 एक हजार तीन सौ छः वर्गफीट अन्दर नगरपार्शद झुमरी तिलैया, वार्ड नं० 10, के अन्तर्गत अवस्थित है यानि उक्त बिक्री रकवा का सम्पूर्ण भाग वो उसके प्रत्येक अंश बिक्री करने का स्वीकृति देते हुए हमेशा हमेशा के लिए क्रेता के पक्ष में डिस्चार्ज वो मुक्त करती है एवं विक्रेता सम्पूर्ण रूप से वो अत्याज्य रूप से उक्त बिक्री रकवा का सम्पूर्ण भाग वो उसका प्रत्येक अंश अन्य समी सुविधाओं वो अधिकारों के साथ जिसका पूर्ण विवरण शिडयूल में दिया गया है एवं संलग्न मानचित्र में लाल रंग से घेरा गया है एवं जो इस दस्तावेज का एक अंग है हमेशा हमेशा के लिए क्रेता के पक्ष में बिक्री/हस्तानान्तरण (grant, convey, transfer, sell, assign) करती है।

सिद्धि देवी
2/9/13



L.T. I of Gunjari devi
Santia kr

यह कि उपरोक्त बिक्री की गई भूमि जिसमें जिस प्रकार का प्राचीन लाभ वो अधिकार है एवं गौन वस्तु वो जिस तरह के उक्त भूमि से संबंधित कानूनी अधिकार है उसे हमेशा हमेशा के लिए क्रेता के साथ बिक्री करती है।

यह कि उक्त बिक्री भूमि वो उसके प्रत्येक अंश का सम्पूर्ण भाग वो उक्त भूखण्ड का अधिकार, रूचि, वो दस्तावेज वो साक्ष्य वो प्रिविलेजेज जो उक्त भूखण्ड से संबंधित हो हमेशा हमेशा के लिए क्रेता के बिक्री करते है।

यह कि विक्रेता प्रतिज्ञा करती है कि उक्त बिक्री की गई भूमि से संबंधित वैसा कोई कार्य, कानूनी कार्रवाई वो वैसा कोई भी दस्तावेज का निस्पादन नहीं करेगी जिससे कि क्रेता को प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़े अथवा कोई क्षति उठाना पड़े।

यह कि विक्रेता घोषणा करती है कि उक्त बिक्री की गई भूमि का कोई अन्य दावेदार नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर किसी अन्य का कोई दखल कब्जा है।

यह कि उक्त भूमि किसी भी प्रकार के ऋण भार, बन्धक, अटैचमेन्ट, प्रोहिबिटरी ऑर्डर, वाद, स्वत्व वाद, चार्जेज, सिलिंग किसी प्रकार के दोष वो अन्य किसी प्रकार के ऋण भार वो ऋण से मुक्त है।

यह कि विक्रेता घोषणा करती है कि इस दस्तावेज के द्वारा बिक्री की गई भूमि इसके पूर्व में किसी अन्य के साथ बिक्री अथवा बिक्री के लिए करार वो बन्धक नहीं की है।

यह कि उक्त बिक्री की गई भूमि से संबंधित सरकार अथवा किसी अन्य संस्था को इसके पूर्व में किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है।

यह कि विक्रेता सारे अधिकारों, स्वत्व वो स्वामित्व वो शान्तिपूर्ण दखल कब्जा के साथ क्रेता को उक्त भूखण्ड का दखल कब्जा हमेशा हमेशा के लिए सुपूर्द कर दीं।


यह कि अब क्रेता उक्त भूखण्ड का उपयोग अपने मशरूफ में अपने मनोनुकूल अपने फायदे वो लाभों के मुताबिक बगैर किसी के हस्तक्षेप के, जैसा मुनासीब समझे चाहे मकान का निर्माण करे चहारदिवारी करे, वो आधुनिक साधनों वो संसाधनों का स्थापना करे वो हवाई स्पेश का उपयोग करे, संपत्ति का कुल आमद वो मुनाफा अपने उपभोग वो तषरूफ में दर लाया करे इसमें विक्रेता मय कायम वारीस वारीसान मोकरियान अथवा उनके प्राधिकृत अभिकर्ता अथवा कोई अन्य ब्यक्ति को न कोई उजुर वो एतराज है और न आइन्दे कभी होगा।

उक्त भूसंपत्ति पर विक्रेता मय कायम वारीस वारीसान मोकरियान का जिस कदर का हक हकूक, दावा दखल, अधिकार स्वत्व वो स्वामित्व वो लाभ था वह कुल आज तारीख से क्रेता मय वारीसान का हुआ।

यह कि अब क्रेता को चाहिए कि उक्त भूसंपत्ति का अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज करा कर साल ब साल माल अदा कर अपने नाम से सरकारी मालगुजारी रसीद हासिल किया करे।

यह कि उक्त बिक्री भूसंपत्ति हर वारदेन से पाक वो साफ है अगर भविष्य में किसी प्रकार का वारदेन पाया जाय तो इसका पूर्ण देनदार वो जिम्मेवार हर्जे खर्चे के साथ विक्रेता/लेख्यकारी मय वारीसान होंगे।

यह कि विक्रेता कुल बाजार मूल्य 4,95,000/- चार लाख पन्चानवे हजार रूपये प्राप्त कर ली है एवं जिसका पावती रसीद/स्मृति पत्र (Memo of consideration) निष्पादित की है जो इस दस्तावेज में संलग्न है एवं विक्रेता का किसी प्रकार का बाकी बकाया क्रेता के पास नहीं रहा और ना ही दिगर कब्जुल वसूली रसीद का जरूरी वो जायज रहा। इसलिए विक्रेता अपने अपने स्वतंत्र सम्मति वो उचित सम्मति स्वतंत्र रूप से यह विक्रय पत्र लिख दी जो वक्त समय पर काम आवे।



L.T.I of Gunjani Devi

Gunjan Kr

2/9/13

शिडयूल

सम्पति सैय तफशील (Sold area of land)

मौजा असना, सर्वे थाना कोडरमा, थाना नं० 245 दो सौ पैतालीस, जिला कोडरमा
अन्दर नगरपार्षद झुमरी तिलैया पुराना वार्ड नं० 03 नया वार्ड नं० 10 दस।
खाता नं० 14 चौदह।

सलाना मालगुजारी:- मोवलग 05 पाँच पैसे मात्र सलाना अलावे शेष।
खेसरा संख्या (प्लॉट नं०) 2079 दो हजार उनासी हासिल रकवा 1306 एक हजार तीन
सौ छः वर्गफीट = 03 तीन डी० के मधे बिक्री रकवा 1306 एक हजार तीन सौ छः
वर्गफीट = 03 तीन डी० जमीन वाके है जिसकी पैमाइश इस प्रकार है:- जानिब उत्तर
पूरब से पश्चिम-39 फीट वो जानिब दक्षिण पूरब से पश्चिम- 32 फीट वो जानिब
पूरब उतर से दक्षिण-39 फीट वो जानिब पश्चिम उतर से दक्षिण-22 फीट 6 इंच +
18 फिट वाके है। उक्त भूमि अन्य मार्ग कावा लीप है।


बिक्री रकवा का वर्तमान चौहदी:-उतर-14 फीट चौडाई का रास्ता रोड नं० 8,
दक्षिण-निर्मल चन्द वर्मा, पूरब-14 फीट चौडाई का रास्ता रोड नं० 7, पश्चिम-श्री
दीनानाथ सिंह एवं बसन्त शर्मा वाके है। जमीन धरती है।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं सी०एन०टी० एक्ट के अर्न्तगत प्रतिबंधित अनुसूचित जन
जाति, अनुसूचित जाति एवं डा-पिछडी जातियों की सूचि से बाहर हूँ।

प्रारूपकर्ता:- नागेश्वर मेहता अनुज्ञप्ति संख्या 21/98 ई० मोकाम कोडरमा। मैं
नागेश्वर मेहता तसदीक करता हूँ कि विक्रेता एवं क्रेता को मजमून वसीका पढ कर
सुना वो समझा दिया- सुन समझ कर कबूल-वो मंजुर कर मेर समक्ष अपना अपना
हस्ताक्षर वो छाप बनाये-एवं अपने अपने बायें हाथ के पाँचों अंगूलियों के निशान
बनाये।



नि. गुंजगी देवी वा.
शुक्रदेव लाल क्रेता
मेरे लामके धापकर्ता
2/9/13



L.T.I of Gujari Devi
Sunder Kr

2/9/13

2/9/13

2/9/13

पावती रसीद / स्मृति पत्र (Memo of Consideration)

मैं विक्रेता गीता देवी उर्फ गीता देवी मिश्र पति का नाम श्री शंभु नाथ मिश्र उर्फ शंभु नाथ वर्तमान निवासी 17 मो0 रमजान लेन जोराबगान कोलकाता 700006 क्रेता श्रीमति गुंजरी देवी पति का नाम बासदेव नायक साकिन जामु थाना मरकच्चो जिला कोडरमा से जमीन का कुल मूल्य 4,95,000/- चार लाख पन्चानवे हजार रूपये नगद गवाहन/पुत्रों/भाई के समक्ष प्राप्त कर ली हूँ:-

गवाहन का हस्ताक्षर

Birendra Mishra
S/o. Shambhu Nath Mishra
10, Md Ramjan Lane. Kal-6
27/11/13

विक्रेता का हस्ताक्षर

~~गीता देवी~~
27/11/13

~~सहदेव मोदी~~
पिता श्री नन्दकु मोदी
रना - काराडीह
शाब - मरकच्चो
जिला - कोडरमा
27/11/13



L.T.I of Gunjari devi
Basudev Kr

निबंधन विभाग, झारखंड

कोडरमा

E & ADDRESS OF VENDER :-

GITA DEVI W/O SRI SAMBHU NATH MISHRA AT+ MAUZA - KARMA P.O. - KARMA
 - TELAIYA DISTT. - KODERMA (JHARKHAND) PIN-825409

Token Date/Time 04/09/2013 12:02:50

Name & Address Karma Tilaiya Koderma (17 Md Ramjan Lane Jora Bagan Date of Entry 04/09/2013

NAME & ADDRESS OF VENDEE:

SMT GUNJRI DEVI W/O SRI BASUDEO SAW AT+ MAUZA - JAMMU P.O. - JAMMU P. S. - MARKACHCHO DISTRICT - KODERMA (JHARKHAND)

Total Pages 24

Old Serial No. 1

DETAILS OF SOLD LAND :-

AT+MAUZA-ASNA,	THANA NO.- 245	WARD NO.- 16	H No	Category	Area	Min. Value
PARGANA - GUMO,	DISTRICT - KODERMA,	STATE JHARKHAND		LL RES	3 Decimal	330000

KHATA No - 14 PLOT No - 2079 SOLD AREA- 3 DEC.
 SCALE - 1 INCH = 20' FEET SHOWN IN RED COLOUR

BOUNDARY OF LAND :-


NORTH - 14' WIDE ROAD NO-08 SOUTH - NIRMAL CHAND VERMMA
 EAST - 14' WIDE ROAD NO-07 WEST - SRI DINANATH SINGH AND BASANT SHARMA

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F 50	UID	Address
1	VENDOR	Geeta Devi @ Geeta Devi Mishra	Shambhu Nath Mishra @ Shambhu Nath	H W		Form 60		Karma Tilaiya Koderma (17 Md Ramjan Lane Jora Bagan Kolkata 06)
2	VENDEE	Gunjari Devi	Basdeo Nayak	H W		Form 60		Jamu Markcho Koderma
3	Identifier	Birendra Mishra	Shambhu Nath Mishra	Farmer		Form 60		Karma Tilaiya Koderma (17 Md Ramjan Lane Jora Bagan Kolkata 06)

Fee Details:

Sl	Description	Amount
1	LL	2000.00
2	ST	320.94
3	A1	14,850.00
4	SP	360.00
5	E	1,000.00
Total		AREA 44



उपर्युक्त प्राप्तिद्वारा दस्तावेज में उल्लिखित तथ्यों के अक्षरों में है।


निबंधन एवं सारांश में इंप्रूवमेंट के अक्षरों में डाटा इंद्रि की गई है।

उपर्युक्त प्रतीकार किया गया है। ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष

विकारी... पिता... पेशा...

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

SIGN OF VENDER
 [Signature]
 4/9/13



L.T.I of
 Gunjari Devi
 [Signature]

SIGN OF AMIN
 [Signature]



**निबंधन विभाग, झारखंड
कोडरमा**
जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token Date/Time: 04/09/2013 12:02:50

Type	Sale Deed	Presenter	Geeta Devi @ Geeta Devi Mishra
Name & Address	Karma Tilaiya Koderma (17 Md Ramjan Lane Jora Bagan Kolkata 06)	Date of Entry	04/09/2013
able Doc. Value	495000	DOE	Total Pages 24
ment Value	495000	Stamp Value	20000
cial Type		Serial No.	0
marks / Other Details		Old Serial No.	/
roperty Details:		CNO/PNO	

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	H No	Category	Area	Min. Value
Jhumri Tilaiya Nagar Palika	245	10	Asna Ward No-10	14	2079	MSP		U_RES	3 Decimal	330000

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount
---------------	---------	-----	-------	----------	------	------	--------

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Caste	PAN/F 60	UID	Address
1	VENDOR	Geeta Devi @ Geeta Devi Mishra	Shambhu Nath Mishra @ Shambhu Nath	H W		Form 60		Karma Tilaiya Koderma (17 Md Ramjan Lane Jora Bagan Kolkata 06)
2	VENDEE	Gunjari Devi	Basdeo Nayak	H W		Form 60		Jamu Markcho Koderma
3	Identifier	Birendra Mishra	Shambhu Nath Mishra	Farmer		Form 60		Karma Tilaiya Koderma (17 Md Ramjan Lane Jora Bagan Kolkata 06)

Fee Details:

SN	Description	Amount
1	LL	2.50
2	PR	0.94
3	A1	14,850.00
4	SP	360.00
5	E	1,000.00
Total		16,213.44

Handwritten signature

उपर्युक्त प्रविष्टियों दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप है।

निबंधन पूर्व सारांश में इंप्ट फार्म के अनुरूप डाटा इंद्रि की गई है।

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

डाटा इंद्रि ऑपरेटर का हस्ताक्षर

उपर्युक्त स्वीकार किया ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे सम्म

जितकी पिता ने की।

पहचान पेशा निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

निवासी निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

L.T.I of Gunjari Devi

Handwritten signature



ng









निबंधन विभाग, झारखंड
कोडरमा

No.2 Token Date: 04/09/2013 12:02:50


Deed No./Year :4758/4570/2013

Type: Sale Deed

N	Party Details	Photo	Thumb
1	Geeta Devi @ Geeta Devi Mishra Father/Husband Name:Shambhu Nath Mishra @ Shambhu Nath (VENDOR) Karma Tilaiya Koderma (17 Md Ramjan Lane Jora Bagan Kolkata 06)		
2	Gunjari Devi Father/Husband Name:Basdeo Nayak (VENDEE) Jamu Markcho Koderma		
3	Birendra Mishra Father/Husband Name:Shambhu Nath Mishra (Identifier) Karma Tilaiya Koderma (17 Md Ramjan Lane Jora Bagan Kolkata 06)		

Book No. I
Volume 141
Page 1 To 24
Deed No 4758/4570
Year 2013
Date 04/09/2013 12:55:12

Registering Officer 

Signature of Operator 



L.T.I of Gunjari devi




ELECTION COMMISSION OF INDIA

ভারতের নির্বাচন কমিশন

IDENTITY CARD

DPD0787037

পরিচয় পত্র



Elector's Name Geeta Devi Mishra

নির্বাচকের নাম গীতা দেবী মিশ্র

Husband's Name Shambhu Nath

স্বামীর নাম শম্ভু নাথ

Sex F

লিঙ্গ ♀

Age as on 1.1.2001 65

১.১.২০০১-এ বয়স ৬৫

Address

17 MAHAMMAD RAMJAN LANE
JORABAGAN Kolkata 700008

ঠিকানা

১৭ মহম্মদ রামজান লেন কোলকাতা ৭০০০০৮

Facsimile Signature
Electoral Registration Officer

নির্বাচক নিবন্ধন অফিসার দ্বারা

For 142-Jorabagan

Assembly Constituency

১৪২-জোরাবাগান

বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র

Place Kolkata


স্থান কোলকাতা

Date 13.02.2001

তারিখ ১৩.০২.২০০১

সিদ্ধকারী

গীতা দেবী মিশ্র



২৭/১/০১

L.T.I of Geeta Devi

গীতা দেবী মিশ্র


ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD
 भारत निर्वाचन आयोग
 पहचान पत्र
 BR/45(262/782637)



Elector's Name : **GUJARI DEVI**
 निर्वाचक का नाम : गुजरी देवी
 Father/Mother/Husband's Name : **VASDEV NAYAK**
 पिता/माता/पति का नाम : वासुदेव नायक
 Sex / लिंग : **Female / स्त्री**
 Age as on 1.1.1994 : **38 Years**
 1.1.1994 को आयु : 38 वर्ष

Address : H.NO.152,
 VILL & P.O. JAMU,
 DIST. HAZARIBAG

पता : म.सं. 152,
 गाँव व डाकघर जमु,
 जिला हजारीबाग

Facsimile Signature of
 Electoral Registration Officer
 for 782-KODERMA Constituency

262-कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र
 के निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी
 के हस्ताक्षर की अनुकृति

Place : **KODERMA** Date : **30.02.05**
 स्थान : **कोडरमा** दिनांक : **30.02.05**

This card may be used as an Identity Card
 under different Government Schemes
 इस पत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं
 के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है

मोहरपट्टारी



निर्वाचक गुजरी देवी

L.T.I of Gujari devi 2/9/13

Signature Kr